

पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र
North Eastern Regional Load Despatch Centre

मौसम से संबंधित लोड क्रैश रिपोर्ट/ Weather Related Load Crash Report

घटना संख्या / Incident No.: उ.पू.क्षे.प्रे. के. /NERLDC/Jun-20/Assam/51

1) घटना के दिनांक और समय / Date and Time of the Incident: 28.06.2020 w.e.f 08:00 Hrs

2) पूर्ववर्ती स्थितियां / Antecedent Conditions:

- Frequency: Pre-incident: 50.11 Hz
- Demand Met / Generation / Inter-Regional Flow

| S.No | Area / Region/Corridor | Demand Met (MW) |
|------|------------------------|-----------------|
| 1 | NER | 1713 |
| 2 | Assam | 866 |

3) सारांश / Summary:

- On 28.06.2020 w.e.f 08:00 Hrs, there was a Load Crash of around 295.1 MW (LA: 119.6, CA: 78.5, UA: 39 MW) due to heavy rainfall in Assam Power System.

• लाइन ट्रिपिंग और बहाली विवरण / Lines Tripping and Restoration Details:

No tripping of line at 132 kV level and above

• जेनरेटर ट्रिपिंग और बहाली विवरण / Generator Tripping and Restoration Details:
Nil.

4) एल टी फीडर का ट्रिपिंग विवरण / Details of tripping of LT feeders

Line fault occurs below 33KV

5) सामान्य बहाली / Normal Restoration: As informed by SLDC, Assam 33 kV substations were asked to restore LT feeders as soon as possible.

6) वर्तमान स्थिति / Current Status: System is normal.

Shift Incharge
NERLDC, RTSD

पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र
North Eastern Regional Load Despatch Centre

मौसम से संबंधित लोड क्रैश रिपोर्ट/ Weather Related Load Crash Report

घटना संख्या / Incident No.: उ.पू.क्षे.प्रे. के. /NERLDC/Jun-20/Assam/52

1) घटना के दिनांक और समय / Date and Time of the Incident: 28.06.2020 w.e.f 20:00 Hrs

2) पूर्ववर्ती स्थितियां / Antecedent Conditions:

- Frequency: Pre-incident: 50.04 Hz
- Demand Met / Generation / Inter-Regional Flow

| S.No | Area / Region/Corridor | Demand Met (MW) |
|------|------------------------|-----------------|
| 1 | NER | 2474 |
| 2 | Assam | 1526 |

3) सारांश / Summary:

- On 28.06.2020 w.e.f 20:00 Hrs, there was a Load Crash of around 206 MW (**LA: 99, CA: 52, UA: 55 MW**) due to heavy rainfall in Assam Power System.

• लाइन ट्रिपिंग और बहाली विवरण / Lines Tripping and Restoration Details:

No tripping of line at 132 kV level and above

• जेनरेटर ट्रिपिंग और बहाली विवरण / Generator Tripping and Restoration Details:
Nil.

4) एल टी फीडर का ट्रिपिंग विवरण / Details of tripping of LT feeders

Line fault occurs below 33KV

5) सामान्य बहाली / Normal Restoration: As informed by SLDC, Assam 33 kV substations were asked to restore LT feeders as soon as possible.

6) वर्तमान स्थिति / Current Status: System is normal.

Shift Incharge
NERLDC, RTSD